

## प्रेस नोट दिनांक- 16.11.2020

(1). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2041 चौकी शिवरामपुर अंतर्गत दिनांक 15.11.2020 को समय 17:17 बजे इवेंट संख्या 13875 द्वारा घटनास्थल भरतकूप वाला रास्ता राम सिया मंदिर चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर सूरज ( मोबाइल नंबर 9696289556 ) द्वारा सूचना दी गयी कि एक्सीडेंट हो गया है 2 लोग घायल है हालत गंभीर है 4 पहिया वाला बाइक वाले को टक्कर मार के भाग गया है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी जिसका नं up71s7677 है, मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार कर भाग गया है जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये है। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल घटना के संबंध में चौकी प्रभारी शिवरामपुर को बताया घटनास्थल पर चौकी प्रभारी सीतापुर भी आ गये है। सभी घायलों को पीआरवी कर्मियों ने पीआरवी वाहन द्वारा लाकर जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया गया है। साथ में घायलों के परिजन भी मौजूद आ गये। चौकी प्रभारी शिवरामपुर द्वारा चेकिंग कराकर एक्सीडेंट करके भाग रही गाड़ी को पकड़ लिया गया तथा गाड़ी नं0 up71s7677 को पकड़ कर चौकी शिवरामपुर लाया गया है। अग्रिम कार्यवाही चौकी प्रभारी द्वारा की जायेगी।

### पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर – मुख्य आरक्षी अमर सिंह

सब कमांडर - आरक्षी रजा हुसैन

पायलट - hg राधेश्याम

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.11.2020 को भाईदूज त्यौहार के दृष्टिगत एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा बोड़ी पोखरी तिराहा पर एवं एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी शहर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।